



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2011/पौष 24, 1932

No. 67]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2011/PAUSA 24, 1932

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

(आईआई अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2010

का.आ. 70(अ).—विकास परिषद (क्रियाविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के खंड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के भारतीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा ऑटोमोबाइल एवं सहायक उद्योग विकास परिषद (डी.सी.ए.आई.) का सदस्य नियुक्त करती है :—

क. व्यक्ति जो अनुसूचित उद्योग के तकनीकी या अन्य स्वरूपों से संबंधित मामले में विशेष जानकारी रखते हैं :—

1. सचिव, भारत सरकार
भारी उद्योग विभाग,
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय —अध्यक्ष
2. सचिव,
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली —सदस्य
3. सचिव (परिवहन),
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
परिवहन भवन, नई दिल्ली —सदस्य
4. सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली —सदस्य

5. सचिव,
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली —सदस्य

6. सचिव,
योजना आयोग
योजना भवन, नई दिल्ली —सदस्य

7. श्री एस. आर. मराठे, निदेशक —सदस्य

आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
102, बेतन हिल पॉड रोड,

कोथरूड, पुणे-411004, महाराष्ट्र

ख. व्यक्ति जो अनुसूचित उद्योग में औद्योगिक उपक्रमों के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं :—

8. अध्यक्ष, —सदस्य

सोसायटी ऑफ इण्डियन आटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स
कोर-बी, जोन IV, पांचवां तल,
इण्डिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-3
(चूंकि अध्यक्ष एसआईएम, श्री पवन गोयनका को
क्र. सं. 20 पर पहले ही प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है
इसलिए श्री एस. शांडिल्य, उपाध्यक्ष एसआईएम का
प्रतिनिधित्व करेंगे)

9. अध्यक्ष, —सदस्य

आटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
केपिटल कोट, छटा तल, आलोफ पाल्में मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली-110067

10. अध्यक्ष, —सदस्य

ट्रैक्टर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन,
23-26 औद्योगिक क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली

11. श्री रतन टाटा, —सदस्य
अध्यक्ष, टाटा मोटर्स लिमिटेड,
बॉम्बे हाउस, 24 होमो मोटी स्ट्रीट,
हुतात्मा चौक, मुम्बई- 400001
12. श्री आर शेषयी, —सदस्य
प्रबंध निदेशक, अशोका लेलैण्ड,
19, राजाजी सराय,
चेन्नई-600 001
13. श्री पवन मुंजाल, —सदस्य
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हीरो होण्डा मोटर्स लिमिटेड,
34, सामुदायिक केन्द्र,
बसंत लोक, बसंत बिहार, नई दिल्ली
14. श्री राजीव बजाज, —सदस्य
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बजाज आटो लिमिटेड,
आकुर्डी, पूणे-411035
15. श्री वेणु श्रीनिवासन, —सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टीवीएस मोटर्स/टीवीएस ग्रुप
जयलक्ष्मी एस्टेट, पांचवां तल,
8, हैडोस रोड, चेन्नई-600006
16. अध्यक्ष, —सदस्य
मैसर्स मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड,
11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001
17. श्री विक्रम किलोस्कर, उपाध्यक्ष, —सदस्य
मैसर्स टोयटा किलोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड,
सी/ओ किलोस्कर सिस्टमस लिमिटेड,
एम्बेसी स्टार, 8, पैलेस रोड,
बसंत नगर, बैंगलोर-560052
18. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, —सदस्य
मैसर्स जनरल मोटर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड,
छठा तल, टावर ए, ग्लोबल बिजनेस पार्क,
महरौली-गुडगांव रोड, गुडगांव-122002
19. श्री बाबा एन कल्याणी, —सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत फोर्ज लिमिटेड,
मुंघवा, पुणे-411036
20. श्री पवन गोयंका, —सदस्य
अध्यक्ष (आटो क्षेत्र),
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड,
गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंडर, मुम्बई-400001
21. श्री बिजोन नाग, अध्यक्ष, —सदस्य
आईएफबी आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड,
प्लांट सं. आईएनडी, सेक्टर-1, ईस्ट कोलकाता
टाउनशिप, कोलकाता-700018

22. श्री रघु मोदी,
अध्यक्ष, हिन्दुस्तान कंपोजिट्स लिमिटेड,
79, डा. ऐनी बेसेन्ट रोड, वर्ली,
मुम्बई-400018

ग. व्यक्ति जो अनुसूचित उद्योग या अनुसूचित उद्योगों के समूह में औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं :—

23. वी. के. जयरथ, —सदस्य
पूर्व सचिव, महाराष्ट्र सरकार,
194-बी-कल्पतरु होरीजन,
एस. के. अहीरे मार्ग, वर्ली,
मुम्बई-400018

घ. व्यक्ति जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणीयों से संबंधित नहीं है और जो अनुसूचित उद्योग द्वारा निर्मित या उत्पादित सामानों के उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं :—

24. सचिव, —सदस्य
राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद,
विज्ञान भवन अनेक्सी,
नई दिल्ली
सदस्य-सचिव

25. संयुक्त सचिव (आटोमोबाइल के प्रभारी), भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली आटोमोबाइल एवं सहायक उद्योग विकास परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

2. विकास परिषद (क्रियाविधि) नियम के नियम 2 के खण्ड (ग) के अनुपालन में, केन्द्र सरकार संयुक्त सचिव, आटो सेक्टर के प्रभारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली को कथित विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7(6)/2007-ईआई]

अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND
PUBLIC ENTERPRISES
(Department of Heavy Industry)
(AEI SECTION)**

ORDER

New Delhi, the 28th December, 2010

S.O. 70(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules 1952 the Central Government hereby appoints, for a period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, the following persons to be Members of the Development Council for Automobiles and Allied Industries (DCAAI) namely :—

A. Persons having special knowledge of matter relating to the technical or other aspects of the Scheduled Industries.

1. Secretary to the Government of India, —Chairman
Department of Heavy Industry
Ministry of Heavy Industry and
Public Enterprises.
2. Secretary, —Member
Department of Commerce,
Udyog Bhavan, New Delhi.
3. Secretary (Transport), —Member
Ministry of Road Transport and
Highways, Transport Bhavan,
New Delhi.
4. Secretary, —Member
Ministry of Petroleum and Natural
Gas, Shastri Bhavan, New Delhi.
5. Secretary, —Member
Department of Revenue,
Ministry of Finance,
North Block, New Delhi.
6. Secretary, —Member
Planning Commission,
Yojana Bhavan, New Delhi.
7. Shri S.R. Marathe, Director, —Member
Automotive Research Association
of India, 102, Vetal Hill, Off. Paud
Road Kothrud, Pune-411004,
Maharashtra.

B. Persons capable of representing the interests of owners of Industrial Undertaking in the Scheduled Industry

8. President, —Member
Society of Indian Automobile Manufacturers
Core 4-B, Zone-IV, 5th Floor, India Habitat
Centre, Lodhi Road, New Delhi-3
[As President SIAM, Shri Pawan Goenka is
already Represented (Sl. No. 20),
Shri S. Sandilya, Vice President, SIAM
will also represent SIAM].
9. President, —Member
Automotive Component Manufacturers
Association, Capital Court, 6th Floor,
Olof Palme Marg, Munirka,
New Delhi-110067.
10. President, —Member
Tractor Manufacturers Association,
23-26, Institutional Area, Lodhi Road,
New Delhi.

11. Shri Ratan Tata, —Member
Chairman, Tata Motors Limited,
Bombay House, 24, Horni Mody Street,
Hutatma Chowk, Mumbai-400001.
12. Shri R. Sheshayee, —Member
MD, Ashok Leyland
19, Rajaji Salai, Chennai-600001.
13. Shri Pawan Munjal, —Member
Managing Director & CEO,
Hero Honda Motors Ltd.
34, Community Centre, Basant Lok
Vasant Vihar, New Delhi.
14. Shri Rajiv Bajaj, —Member
Managing and CEO,
Bajaj Auto Limited,
Akurdi, Pune-411035
15. Shri Venu Srinivasan, —Member
Chairman & Managing Director,
TVS Motors/TVS Group
Jayalakshmi Estate, Vth Floor,
8, Haddows Road, Chennai-600006.
16. Chairman, —Member
M/s. Maruti Suzuki India Ltd.,
11th Floor, Jeevan Prakash Building,
25, KG Marg, New Delhi-110001.
17. Shri Vikram Kirloskar, Vice Chairman, —Member
M/s. Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd.,
C/o. Kirloskar Systems Ltd.
Embassy Star, 8, Palace Road,
Vasanthnagar, Bangalore-560052.
18. President & Managing Director, —Member
M/s. General Motors India Pvt. Ltd.,
6th Floor, Tower A, Global Business Park,
Mehrauli Gurgaon Road,
Gurgaon-122002.
19. Shri Baba N. Kalyani, —Member
Chairman & Managing Director,
Bharat Forge Ltd.,
Mundhwa, Pune-411036.
20. Shri Pawan Goenka, —Member
President (Auto Sector),
Mahindra & Mahindra Ltd.,
Gateway Building, Appollo Bunder,
Mumbai-400001.
21. Shri Bijon Nag, Chairman, —Member
IFB Automotive Pvt. Ltd.,
Plot No. IND,
Sector-I, East Kolkatta Township,
Kolkatta-400018.
22. Shri Raghu Modi, —Member
Chairman, Hindustan Composites Ltd.,
79, Dr. Annie Besant Road, Worli,
Mumbai-400018.

C. Persons capable of representing the Interests of persons employed in Industrial Undertakings in the Scheduled Industry or group of Scheduled Industry.

23. Shri V.K. Jairath, —Member
Ex-Secretary, Government of Maharashtra,
194-B, Kalpataru Horizon,
S. K. Ahire Marg, Worli
Mumbai-400018.

D. Persons not belonging to any of the aforesaid categories, who are capable of representing the interest of consumers of goods manufactured or produced by the scheduled industry.

24. Secretary, —Member
National Manufacturing
Competitiveness Council,
Vigyan Bhavan Annexe,
New Delhi.

Member-Secretary

25. Joint Secretary (in-charge of automobiles), Department of Heavy Industry, Udyog Bhavan, New Delhi shall be Member Secretary to the Development Council on Automobile and Allied Industry.

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Joint Secretary, in charge of Auto Sector, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, New Delhi to carry on the functions of the Secretary to the said Development Council.

[F.No. 7(6)/2007-AEI]
AMBUJ SHARMA, Jt. Secy.